


### अध्याय 3

## निर्देशांक ज्यामिति

### महत्वपूर्ण बिन्दु

- निर्देशांक अक्ष : कार्तीय तल में किसी बिन्दु की स्थिति को दो परस्पर लम्बवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये परस्पर लम्बवत रेखाएँ निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं।



- क्षैतिज रेखा  $xox'$  को x अक्ष कहा जाता है।
- उर्ध्वाधर रेखा  $yoy'$  को y अक्ष कहा जाता है।
- x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं।

- निर्देशांक :- कार्तीय पद्धति में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांक  $P(a, b)$  का प्रयोग किया जाता है।
  - बिंदु  $P(a, b)$  में  $a$ ,  $y$ -अक्ष से  $P$  की लम्बवत दूरी है व निर्देशांक का भुज कहलाता है।
  - बिंदु  $P(a, b)$  में  $b$ ,  $x$ -अक्ष से  $P$  की लम्बवत दूरी है व निर्देशांक का कोटि कहलाता है।
  - भुज ( $a$ ) व कोटि ( $b$ ) के धनात्मक ( $> 0$ ) और क्रृष्णात्मक ( $< 0$ ) चिन्ह के अनुसार बिन्दु  $P(a, b)$  को कार्तीय तल में इस प्रकार दर्शाया जाता है-

भुज व कोटि का मान	भुज व कोटि के चिन्ह	बिन्दु की स्थिति
(i) $a = 0, b = 0$	—	मूल बिन्दु
(ii) $a > 0, b > 0$	(+, +)	I (प्रथम) चतुर्थांश
(iii) $a < 0, b > 0$	(-, +)	II (द्वितीय) चतुर्थांश
(iv) $a < 0, b < 0$	(-, -)	III (तृतीय) चतुर्थांश
(v) $a > 0, b < 0$	(+, -)	IV (चतुर्थ) चतुर्थांश

**नोट:** यदि कोई बिंदु x -अक्ष अथवा y - अक्ष पर स्थित होता है तो वह बिंदु किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता।

$x$ -अक्ष पर किसी बिन्दु के निर्देशांक  $(x, 0)$  रूप के होते हैं।


$y$ -अक्ष पर किसी बिन्दु के निर्देशांक  $(0, y)$  रूप के होते हैं।

खण्ड अ

14. किसी बिन्दु के निर्देशांक लिखिये जिसकी  $x$ -अक्ष से लम्बवत् दूरी 5 इकाई हो और  $y$ -अक्ष से 3 इकाई हो और बिन्दु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो।

### खण्ड ब

15. ग्राफ पेपर पर अक्षों को बनाते हुए निम्न बिन्दुओं को तल पर आलेखित कीजिए-
- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (i) A (3, 5)    | (ii) B (-7/2, 0), |
| (iii) C (2, -6) | (iv) D (-6, -4)   |
| (v) E (0, -5/2) | (vi) F (8, 0)     |
16. दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए-
- बिन्दु A, B, C, P, Q और R के निर्देशांक लिखिए।



17. बिंदु  $P(4, 3)$  प्रथम चतुर्थांश में है। बिंदु  $Q$  के निर्देशांक लिखें यदि  $Q$  बिंदु  $P$  के विपरीत चतुर्थ चतुर्थांश में हो।
18. बिंदु  $P(8, 3)$  की  $x$  अक्ष से दूरी ज्ञात करिये।
19. कार्तीय तल में बिंदुओं  $A(-3, 0)$ ,  $B(0, 3)$  और  $C(3, 0)$  को जोड़ने पर बनी आकृति का नाम लिखिये।
20. उस बिंदु के निर्देशांक लिखे जो  $y$ -अक्ष पर स्थित है तथा मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर की ओर है।
21. बिंदु  $S(-5, 7)$ ,  $x$ -अक्ष द्वारा दर्पण प्रतिबिम्ब के निर्देशांक लिखिये।
22. बिंदु  $P(4, 0)$  की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिये।
23. बिंदु  $(4, -3)$  का  $y$ -अक्ष में दर्पण प्रतिबिम्ब क्या होगा?

### खण्ड स

24. ग्राफ पेपर पर एक रेखाखण्ड बनाओ जिसके अंत बिंदु प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अंत बिंदु व मध्य बिंदु के निर्देशांक भी लिखिये।
25. बिंदु  $A(2, 4)$  और  $B(2, -5)$  जिनका  $x$ -निर्देशांक समान है, को आलेखित करिये। क्या  $AB$  रेखा किसी एक अक्ष के समान्तर हैं? यदि हाँ, तो किस अक्ष के समान्तर है, लिखिये।
26. बिंदु  $P(2, -3)$  और  $Q(-5, -3)$  जिनके  $y$ -निर्देशांक (कोटि) समान है, को आलेखित कीजिये।  $PQ$  रेखा किस अक्ष के समान्तर हैं?
27. बिंदु  $A(7, 6)$  और  $B(7, -6)$  को ग्राफ पेपर पर दर्शाओ। दोनों बिंदुओं को जोड़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो-

- (i) उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जहाँ यह  $x$ -अक्ष पर काटती है।
- (ii) यह रेखा किस अक्ष के समांतर होगी?
28. ग्राफ पेपर पर एक त्रिभुज ABC बनाओ, जिसके शीर्षों के निर्देशांक A(-2, 0), B(4, 0) और C(1, 5) हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।
29. यदि हम कार्तीय तल पर बिंदु P(5, 0), Q(5, 5), R(-5, 5) और S(-5, 0), को जोड़ते हैं तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? इस आकृति की सममिति अक्ष को भी लिखिये।
30. उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जो कि बिंदु (-4, 0) और (4, 0) से समदूरस्थ है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसे कितने बिंदु संभव हैं?
31. ग्राफ पेपर पर एक चतुर्भुज बनाओ जिसके शीर्ष बिंदु A(4, 3), B(-4, 3), C(-4, -3) और D(+4, -3) हैं। इसके विकर्णों को बनाओ और उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं।

### खण्ड द

32. एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 10 इकाई व चौड़ाई 8 इकाई है। यदि इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और लंबी भुजा  $x$ -अक्ष तथा एक शीर्ष प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
33. बिंदुओं B(5, 3), E(5, 1), S(0, 1) और T(0, 3) को कार्तीय तल में दर्शायें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) बिंदुओं को जोड़कर बनी हुई आकृति का नाम लिखिये।
- (ii) आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

### अध्याय 3

## निर्देशांक ज्यामिति

### उत्तर

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 1.  | (i) IV चतुर्थांश   | (ii) IV चतुर्थांश           |
|     | (iii) II चतुर्थांश   | (iv) III चतुर्थांश          |
|     | (v) I चतुर्थांश  | (vi) II चतुर्थांश           |
| 2.  | (i) x-अक्ष   | (ii) x-अक्ष                 |
|     | (iii) y-अक्ष   | (iv) y-अक्ष                 |
| 3.  | (-3, -5)   | 4. मूल बिंदु                |
| 5.  | हाँ  | 6. II या III चतुर्थांश      |
| 7.  | समकोण त्रिभुज  | 8. I प्रथम चतुर्थांश        |
| 9.  | 0  | 10. (1, -2)                 |
| 11. | x-अक्ष—2 इकाई y-अक्ष—5 इकाई                                  |                             |
| 12. | x-अक्ष—80 इकाई y-अक्ष—116 इकाई                               |                             |
| 13. | IV   | 14. (-3, 5)                 |
| 16. | A(3, -7), B(-3, -3), C(4, 9),<br>P(6, 0), Q(-10, 7) R(9, -4) |                             |
| 17. | (4, -3)  | 18. 3 इकाई                  |
| 19. | त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज                                | 20. (0, 2)                  |
| 21. | (-5, -7)   | 22. 4 इकाई                  |
| 23. | (-4, -3)   | 25. हाँ, y-अक्ष के सामान्तर |
| 26. | x-अक्ष   | 27. (i) (7, 0)              |
| 28. | 15 वर्ग इकाई   | (ii) y-अक्ष के समान्तर होगी |
| 29. | आयत, y-अक्ष  |                             |
| 30. | y-अक्ष पर कोई भी बिंदु, असंख्य                               | 31. मूल बिंदु पर (0, 0)     |
| 33. | i) आयत      ii) 10 इकाई                                      |                             |


## अभ्यास परीक्षा

### निर्देशांक ज्यामिति

Time : 50 Min.

M.M. 20

1. बिंदु  $(x, y)$  किस चतुर्थांश में स्थित है? (जहां  $x$  एक धनात्मक संख्या है तथा  $y$  एक ऋणात्मक संख्या है) (1)
2.  $x$ -अक्ष पर स्थित बिंदु का  $y$  निर्देशांक लिखिए। (1)
3.  $x$  और  $y$  का मान ज्ञात कीजिए यदि
  - $(x - 4, 7) = (4, 7)$
  - $(1, 2y - 3) = (1, 7)$
 (2)
4. बिंदु  $(7, -6)$  की  $x$ -अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। (2)
5. निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए।  $(-3, -5), (-2, 0)$   
 $(-4, 2)$  (3)
6. रेखा  $l$  और  $m$  के लिए रैखिक समीकरण लिखिये।  
उस रेखा का नाम भी लिखिये जिसको समीकरण  $x = 0$  के द्वारा दर्शाया जाता है।



7. बिंदुओं  $O(0, 0), A(4, 0)$  और  $C(0, 6)$  को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। (4)  
यदि  $OABC$  एक आयत है तो चौथे बिंदु  $B$  के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
8. दो समबाहु त्रिभुजों  $ABC$  और  $ABD$ , जिसकी भुजा  $2a$  है, का आधार  $AB$  (4)  
 $x$ -अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि  $AB$  का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है।  
 $C$  और  $D$  के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।